



Essential Plan

पर त्वरित तथ्य

मैं नामांकन किस प्रकार करूँ?

nystateofhealth.ny.gov

या

1-855-355-5777 या
TTY: 1-800-662-1220

या

आपके घर या कार्यालय के पास किसी प्रमाणित व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने वाले सहायक द्वारा निःशुल्क सहायता के माध्यम से।

क्या आप मुझे मेरी भाषा में सहायता प्रदान कर सकते हैं?

सहायता फ़ोन द्वारा और व्यक्तिगत रूप से आपकी भाषा में उपलब्ध है।

मैं नामांकन कब कर सकता/सकती हूँ?

Essential Plan के लिए नामांकन वर्ष भर खुला है।

NY State of Health लागू संघीय नागरिक अधिकारों के कानून और राज्य कानूनों के अनुपालन के तहत जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, संप्रदाय/धर्म, लिंग, आयु, वैवाहिक/पारिवारिक स्थिति, गिरफ्तारी का रिकॉर्ड, आपराधिक दोष, लिंग की पहचान, यौन अभिविन्यास, आनुवंशिक विशेषताओं, सैन्य स्थिति, घरेलू हिंसा पीड़ित की स्थिति और/या प्रतिशोध के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

Essential Plan क्या है?

न्यूयॉर्क के नागरिकों के लिए नई स्वास्थ्य योजना। इसकी लागत अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से बहुत कम है। और यह समान महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है।

इसे कौन खरीद सकता है?

कम-आमदनी वाले ऐसे लोग जो कि Medicaid या Child Health Plus के लिए योग्य नहीं हैं।

| परिवार का आकार | आप अधिकतम इतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं |
|----------------|----------------------------------------|
| 1 | \$25,520 |
| 2 | \$34,480 |
| 3 | \$43,440 |
| 4 | \$52,400 |

इसकी लागत क्या है?

हर महीने \$20 प्रति व्यक्ति – एक दिन में एक डॉलर से कम या मुफ्त।

इससे और किस तरीके से मेरे धन की बचत हो सकती है?

इसमें कुछ कटौती योग्य नहीं है, इस तरह से योजना सीधे आपकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान करना शुरू कर देती है।

आपको स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर द्वारा नियमित जाँच जैसी निःशुल्क रोकथाम देखभाल और स्क्रीनिंग प्राप्त होती है।

Essential Plan कवर क्या है?

अन्य योजनाओं में शामिल समान सेवाएँ:

- विशेषज्ञों सहित चिकित्सक का दौरा
- आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित परीक्षण
- प्रिस्क्रिप्शन दवाएँ
- हॉस्पिटल के भीतर और बाहर मरीज़ की देखभाल
- और अधिक।